



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 237] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 3, 1977/अग्रहायण 12, 1899

No. 237] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 3, 1977/AGRAHAYANA 12 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd December 1977

SUBJECT—Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1977-78.
Amendment of

No. 111-ITC(PN)/77.—Attention is invited to part 213 of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1977-78, regarding import of capital goods and electrical plants by State Electricity Boards/Projects,

2. It has been decided to add the following at the end of para 213 of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1977-78 after the words "New Delhi" —

"Provided that in the case of any electronic item including fac-similes equipment of a cif value of Rs 5 lakhs or more, the Central Electricity Authority shall obtain the prior concurrence of the Department of Electronics for the import thereof before according such clearance."

K V SESHADRI

Chief Controller of Imports & Exports

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1977

विषय.—आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैडबुक, 1977-78 में संशोधन।

सं० 111 आईटीसी (पीएम)-77. राज्य विद्युत् बोर्ड/परियोजनाओं द्वारा पूंजीगत माल और बिजली के संयंत्र के आयात के बारे में आयात व्यापार नियंत्रण, नियम तथा क्रियाविधि, हैडबुक 1977-78 की कंडिका 213 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यह निश्चय किया गया है कि आयात व्यापार नियंत्रण, नियम तथा क्रियाविधि हैड बुक 1977-78 की कंडिका 213 में “नई दिल्ली” शब्दों के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए,—

“बशर्ते कि प्रतिकृति उपकरण सहित 5 लाख रुपए या इस से अधिक लागत बीमा-भाड़े मूल्य की किसी भी इलेक्ट्रानिक मद के मामले में केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण इस के आयात के लिए इस प्रकार की निकासी की स्वीकृति देने से पूर्व इलेक्ट्रानिक विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।”

का० वे० शेषाद्रि,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977